

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) ने चीनी लकी वाली **शेल कंपनियों** की स्थापना और नकली नदिशकों की आपूर्ति से जुड़े एक व्यापक रैकेट के कथति मास्टरमाइंड को गरिफ्तार किया है।

- SFIO को सरकार ने **ज़लियिन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** और 32 अन्य कंपनियों की जाँच का जमिमा सौंपा था।

शेल कंपनियाँ

- आमतौर पर शेल कंपनियाँ ऐसी कॉरपोरेट संस्थाएँ होती हैं, जिनके पास उनका अपना न तो कोई सक्रिय व्यवसाय होता है और न ही उनके पास कोई स्थायी संपत्ति होती है।
- यही कारण है कि इस प्रकार की कंपनियाँ सदैव संदेह के दायरे में रहती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का या तो मनी लॉन्ड्रिंग अथवा कर चोरी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO):

परिचय:

- भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (Multi-disciplinary organization) है जिसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फॉरेंसिक ऑडिट (Forensic audit), कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टम तथा जाँच से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।
 - इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- SFIO के अधिकारियों को उनकी जाँच में सहायता और सेवा प्रदान करने के लिये कंप्यूटर फॉरेंसिक एवं डेटा माइनिंग प्रयोगशाला (CFDML) की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।
- SFIO का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर वभिग के प्रमुख के रूप में एक नदिशक द्वारा किया जाता है।
- गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) शुरू में भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। उस समय SFIO को औपचारिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।

कार्य और भूमिकाएँ:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया है।
 - SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिये लोगों को गरिफ्तार करने का भी अधिकार है।
- कंपनी के मामलों की जाँच केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है और नमिनलखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय को सौंपी जा सकती है:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 (नरीक्षण पर रपिर्ट) के तहत रजिस्ट्रार या नरीक्षण की रपिर्ट प्राप्त होने पर।
 - एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जाँच आवश्यक है।
 - जनहति में।
 - केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी वभिग के अनुरोध पर।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस